

Future यानि भविष्य। Verb के जिस form से भविष्य के बारे में बताया जाए वह Future tense कहलाता है। Future के बारे में बात करना सबको अच्छा लगता है। ऐसी घटनाएं जो अभी घटित नहीं हुई पर निकट भविष्य में हो सकती हैं। जैसे अभी coronavirus फैला हुआ है। सब यही सोचते हैं कि कब यह खत्म होगा। मैं कब बाहर जाऊंगा। या फिर क्या precautions लेंगे इत्यादि। ये सभी भविष्य की बातें हैं जो अभी हुई नहीं हैं पर आपने या तो इन्हें plan किया हुआ है या बहुत संभावना है।

आज हम इसी future tense का बारे में बात करेंगे। Normally जब भी हम इस tense की बात करते हैं तो हम will और shall का प्रयोग कर sentence बनाते हैं। तो पहले हम इसका एक बार revision कर लेते हैं और फिर बात करेंगे किस तरह बोलते समय हम अन्य tenses का प्रयोग कर भविष्य के कर सकते हैं और अपनी language को अधिक effective बना सकते हैं। Future Tense का प्रयोग भविष्य में होने वाली घटनाओं और आदतों का वर्णन करने के लिये किया जाता है।

Simple Future Tense

Simple Future Tense ऐसे कार्यों को व्यक्त करता है जो अभी नहीं हुआ हैं। भविष्यकाल में कोई क्रिया होगी या कोई क्रिया करेगा इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए **Simple Future Tense** का प्रयोग किया जाता है। हिंदी के वाक्यों के अन्त में 'गा', 'गी', 'गे' आते हैं।

Simple Future Tense को बताने के दो तरीके हैं -

1) will + verb जैसे -

You will save him at the end of the day. आप दिन के अंत में उसे बचाएंगे।

She will take the help of doctors for her medical condition. वह अपनी मेडिकल स्थिति के लिए डॉक्टरों की मदद लेंगी।

2) Be Going To ---> am/is/are + going to + verb जैसे -

I am going to have all the tests tomorrow. मैं कल सभी परीक्षण करवाने जा रहा हूँ।

You are going to die soon due to this virus. आप इस वायरस के कारण जल्द ही मरने वाले हैं। (ये सिर्फ sentence है, एक example है जिसमें भविष्य के बारे में बात की गयी है। ऐसी घटना के बारे में बताया है जो अभी हुई नहीं है।)

अब question है कि कब will का use करेंगे और कब is/ am/ are + going to का। Actually दोनों को interchange भी किया जा सकता है पर चूंकि आप अब advanced level पर हैं और आपकी Spoken और Written English बिल्कुल सही होनी चाहिए जहाँ आप अपने कहे हुए शब्दों को justify कर सकें तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानना पड़ेगा -

1) जब हम एक सहज निर्णय (spontaneous decision) लेते हैं, तो हम will का प्रयोग करते हैं जैसे -

I'll answer the phone. मैं फोन का जवाब दूंगा।

I'll have the soup of the day, please. मेरे सूप ऑफ़ थे डे लूंगा, कृपया।

जब हम किसी योजना के बारे में बात करते हैं, तो हम am / is / are + going to का प्रयोग करते हैं।

I'm going to get some fruits. मुझे कुछ फल मिलने वाले हैं।

We're going to have a picnic this weekend. हम इस सप्ताहांत में पिकनिक मनाने जा रहे हैं।

जब हमारा प्लान थोड़ा ज्यादा strong हो तब present continuous tense का use करते हैं जैसे -

I'm doing yoga with Shilpa Shetty tomorrow at 7. मैं कल 7 बजे शिल्पा शेट्टी के साथ योग कर रहा हूँ।

2) will or going to में से किसका प्रयोग करना है, यह decide करना इतना आसान नहीं है। इसका कोई hard and fast rule नहीं है। बोलने से पहले अपने आप से पूछिए कि What helps you make your prediction: belief or fact (विश्वास या तथ्य)? जैसे -

We will reach the moon soon. हम जल्द ही चांद पर पहुंचेंगे।

We are reaching the moon soon. हम जल्द ही चांद पर पहुंच रहे हैं।
दोनों sentences देखने और सुनने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं पर इनमें थोड़ा सा अंतर है -
जब हमारे ISRO के chief कहते हैं कि We will reach the moon soon. इसका मतलब यह उनका विश्वास है।
ओर जब उन्होंने कहा We are reaching the moon soon. तब उनके पास एक तथ्य मौजूद है क्योंकि हाल ही में
एक satellite चाँद पर उतरा था.. वो बात अलग है कि हमारा संपर्क टूट गया पर एक तथ्य है उनके सामने कि अब
वे ऐसा कर सकते हैं।

Simple Future Tense से जुड़ी महत्वपूर्ण बात -

Simple Future Tense ऐसे clauses जो time expressions जैसे when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless, etc. से शुरू हो, उनके साथ नहीं लगता। (कोई भी future tense नहीं लगता हैं।)
इसकी जगह पर हम Simple Present tense का प्रयोग करते हैं जैसे -

When you will arrive tonight, we will go out for dinner. (Wrong)

When you arrive tonight, we will go out for dinner. (Correct)

Affirmative Sentence (सकारात्मक वाक्य)

Subject (कर्ता) + will/ shall + Verb (क्रिया) की 1st Form + Object

Negative Sentence (नकारात्मक वाक्य)

Subject (कर्ता) + will/ shall + not + Verb (क्रिया) की 1st Form + Object

Interrogative Sentence (प्रश्नवाचक वाक्य)

Will + Subject (कर्ता) + Verb (क्रिया) की 1st Form + Object?

Question word + will + Subject (कर्ता) + Verb (क्रिया) की 1st Form + Object?

Negative Interrogative Sentence (नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य)

Will + Subject (कर्ता) + not + Verb (क्रिया) की 1st Form + Object?

Examples

I will/ shall give him money. (मैं उसे पैसे दे दूंगा।) - यहाँ will और shall दोनों का ही प्रयोग किया जा सकता है।

They will encourage the people. (वे लोगों को प्रोत्साहित करेंगे।)

Her sister will not become a professor. (उसकी बहन प्रोफेसर नहीं बनेगी।)

Sarah is not going to make a beautiful dress for the party. (सारा पार्टी के लिए एक खूबसूरत ड्रेस नहीं बनाने जा रही हैं।)

Will We see everything there? (क्या हम वहां सब कुछ देखेंगे?)

How many books will he buy? (वह कितनी पुस्तकें खरीदेगा?)

Where will we go tomorrow? (हम कल कहाँ जायेंगे?)

Will I not give him money? (क्या मैं उसे पैसे नहीं दूंगा?)

Future Continuous Tense

इस tense के वाक्यों से पता चलता है कि भविष्य में कोई कार्य जारी रहेगा और पूरा नहीं होगा। (The future continuous refers to an unfinished action or event that will be in progress at a time later than now Or we can say it is used to express an ongoing action in future.) हिंदी के वाक्यों के अंत में इस tense में ऐसे वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आता है।

1. इस tense का प्रयोग भविष्य के किसी ऐसे कार्य को बताने के लिए किया जाता है जो पूरा नहीं हुआ हो अथवा जो काम आगे जारी रहेगा (Refer to an unfinished action or event that will be in progress at a time later than now) जैसे -

You will be having dinner when the film starts. (फिल्म शुरू होने पर आप डिनर कर रहे होंगे।)

It will be raining when you return. (जब आप लौटेंगे, बारिश हो रही होगी।)

Affirmative Sentence (सकारात्मक वाक्य)

Subject (कर्ता) + will be/ shall be + Verb (क्रिया) की 1st Form + ing + Object

Negative Sentence (नकारात्मक वाक्य)

Subject (कर्ता) + will/ shall + not + be + Verb (क्रिया) की 1st Form + ing + Object

Interrogative Sentence (प्रश्नवाचक वाक्य)

Will/ Shall + Subject (कर्ता) + be + Verb (क्रिया) की 1st Form + ing + Object?

Wh word + Will/ Shall + Subject (कर्ता) + be + Verb (क्रिया) की 1st Form + ing + Object?

Negative Interrogative Sentence (नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य)

Will/ Shall + Subject (कर्ता) + not + be + Verb (क्रिया) की 1st Form + ing + Object?

Examples

Many of us will be getting tired. (हम में से कई थक गए होंगे।)

It will be raining heavily. (जोरदार बारिश हो रही होगी।)

We shall be coming to your house. (हम आपके घर आ रहे होंगे।)

Both of them will not be taking tea. (दोनों चाय नहीं ले रहे होंगे।)

Atharv will not be learning English. (अथर्व अंग्रेजी नहीं सीख रहा होगा।)

Will he be waiting for you? (क्या वह तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा?)

Where will they be playing in evening. (वे शाम को क्रिकेट कहाँ खेल रहे होंगे।)

When will he be doing his work. (वह अपना काम कब कर रहा होगा?)

Will you not be preparing for the SSC next year? (क्या आप अगले साल SSC की तैयारी नहीं कर रहे होंगे?)

अब जानते हैं Simple Future Tense और Future progressive tense में अंतर

Basically, दोनों ही tenses भविष्य में होने वाले action को बताते हैं।

पर अगर आपको सिर्फ future में होने वाले action के बारे में बताना है तो Simple Future Tense का use करें।

इस tense में आपको सिर्फ action के बारे में जानकारी देनी है जैसे -

I will read it. मैं इसे पढ़ लूँगा।

I will eat at 8 pm. मैं 8 बजे खाऊँगा।

जबकि future progressive tense आपको दो बातों की जानकारी देता है -

1) action के समय का

2) और बताता है कि action भविष्य में भी जारी रहेगा

जैसे -

I will be reading the book tomorrow, so don't disturb me. मैं कल किताब पढ़ रहा होऊँगा, इसलिए मुझे परेशान मत करना।

Tomorrow at nine o'clock I will be watching TV ? so don't call me. कल रात नौ बजे मैं टीवी देख रहा होऊँगा? इसलिए मुझे मत कॉल करना।

ये दोनों ही sentences बता रहे हैं कि किताब पढ़ने का कार्य और टीवी देखने का कार्य जारी रहेगा। संक्षेप में, अगर आप सिर्फ future action के बारे में बता रहे हैं तो Simple Future Tense का और अगर action के साथ साथ इस पर भी जोर देना चाह रहे कि action चालू रहेगा तो Future Progressive Tense का use करें। इसी तरह "I will come tomorrow" और "I will be coming tomorrow" दोनों ही वाक्यों का almost same ही meaning होगा बस second sentence कार्य के जारी रहने पर जोर दे रहा है।

Future Perfect Tense

भविष्यकाल में किसी निश्चित समय के पहले कोई क्रिया पूर्ण हो गई होगी यह दर्शाने के लिए Future Perfect Tense का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में इन वाक्यों के अंत में समय के साथ रहा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि आता है या फिर Sub (कर्ता) ने ऐसा... कर लिया होगा/कर दिया होगा/ Sub ऐसा कर चुका होगा इत्यादि। जैसे -

We will have gotten the medicine for coronavirus next year. हम अगले साल तक कोरोनावायरस की दवा पा चुके होंगे। (यह वाक्य दर्शाता है कि जाने का कार्य कल (भविष्य) में समाप्त हो चुका होगा।)

Future Perfect Tense में हमेशा सहायक क्रिया की तरह will have/shall have का प्रयोग होता है। I और We के साथ shall have और बाकी subject के साथ will have का प्रयोग होता है।

Affirmative Sentence (सकारात्मक वाक्य)

Subject (कर्ता) + will have/shall have + Verb (क्रिया) की 3rd Form + Object

Negative Sentence (नकारात्मक वाक्य)

Subject (कर्ता) + will/shall + not + have + Verb (क्रिया) की 3rd Form + Object

Interrogative Sentence (प्रश्नवाचक वाक्य)

Will/ Shall + Subject (कर्ता) + have + Verb (क्रिया) की 3rd Form + Object?

Wh word + Will/ Shall + Subject (कर्ता) + have + Verb (क्रिया) की 3rd Form + Object?

Negative Interrogative Sentence (नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य)

Will/ Shall + Subject (कर्ता) + not + have + Verb (क्रिया) की 3rd Form + Object?

Examples

She will have finished her project. वह अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुकी होगी।

By the time you arrive, we will have finished the meal. (जब तक आप आएं, हम भोजन समाप्त कर चुके होंगे।)

I will have read every magazine in the waiting room before I see the dentist. (Dentist से मिलने से पहले मैं waiting room की सारी पत्रिकाएं पढ़ चुका हूँगा।)

I will not have read every magazine in the waiting room before I see the dentist. (Dentist से मिलने से पहले मैं waiting room की सारी पत्रिकाएं नहीं पढ़ चुका हूँगा।)

He will not have gone the market. (वह बाजार नहीं जा चुका होगा।)

He will not have completed his work by 2020. (वह 2020 तक अपना काम पूरा नहीं कर चुका होगा।)

Will bus have reached? (क्या बस पहुँच गयी होगी?)

Why will they have gone home? (वे घर जा क्यों चुके होंगे?)

Will he not have gone the market? (क्या वह बाजार नहीं जा चुका होगा?)

Future Perfect Continuous Tense

ऐसे वाक्य जो भविष्य में किसी कार्य के किसी समय तक जारी होने को व्यक्त करते हैं Future Perfect Continuous के होते हैं। (We use the Future Perfect Continuous to show that something will continue up until a particular event or time in the future.) Future Perfect Continuous Tense के हिन्दी वाक्यों के अन्त में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा आदि शब्द आते हैं।

Future Perfect Continuous Tense और Future Continuous Tense में सिर्फ एक ही अंतर है कि Future Perfect Continuous Tense के साथ समय जरूर दिखाया जाता है।

Affirmative Sentence (सकारात्मक वाक्य)

Subject (कर्ता) + shall/ will + have + been + Verb (क्रिया) की 1st Form + ing + Object + since / for + time.

Negative Sentence (नकारात्मक वाक्य)

Subject (कर्ता) + will/shall + not + have been + Verb (क्रिया) की 1st Form + ing + Object + since / for + time.

Interrogative Sentence (प्रश्नवाचक वाक्य)

Will/Shall + subject (कर्ता) + have been + Verb (क्रिया) की 1st Form + ing + Object + since / for + time + ?

Wh word + will/ shall + subject (कर्ता) + have been + Verb (क्रिया) की 1st Form + ing + Object + since / for + time + ?

Negative Interrogative Sentence (नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य)

Will/Shall + subject (कर्ता) + not + been + Verb (क्रिया) की 1st Form + ing + Object + since / for + time + ?

Examples

The boys will have been playing cricket in the ground for an hour. (लड़के एक घण्टे से मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे।)

I shall have been starting my business since May. (मैं अपना business मई से शुरू कर रहा हूँगा।)

We shall not have been using her computer for six months. (हम छः महीने से उसका कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे।)

We will not have been learning english for 10 years. (हम 10 साल से अंग्रेजी नहीं सीखते रहे होंगे।)

She will not have been driving for 2 hours. (वह 2 घंटे से ड्राइव नहीं कर रही होगी।)

Will we have been learning english for 10 years? (क्या हम 10 साल से अंग्रेजी सीखते हो रहे होंगे?)

Will I have been waiting for him for one hour? (क्या मैं उसका एक घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँगा?)

How will Rahul have been practicing on this computer for many months? (राहुल कई महीनों से इस कम्प्यूटर पर अभ्यास कैसे कर रहा होगा?)

Will Indian cricket team not have been practicing in this ground for six months? (क्या इस मैदान में भारतीय क्रिकेट टीम छः महीने से अभ्यास नहीं करती रही होगी?)

Will you not have been reading the novel since morning? (क्या तुम सुबह से उपन्यास नहीं पढ़ रहे होगे?)

अब जानते हैं Future की बातों को व्यक्त करने के अन्य तरीके

Ishita is seeing Roshan tomorrow. इशिता कल रोशन को देख रही है। (the present progressive, also known as the present continuous.)

Ishita is going to see Roshan tomorrow. इशिता कल रोशन को देखने जा रही है। (BE + going to, sometimes referred to as the "(BE) going to future".)

Ishita sees Roshan tomorrow. इशिता कल रोशन को देखेगी। (the present simple)

Ishita will see Roshan tomorrow. इशिता कल रोशन को देखेगी। (future simple)

Ishita will be seeing Roshan tomorrow. इशिता कल रोशन को देख रही होगी। (future progressive/continuous)

We use a number of expressions with the main verb be when we refer to the future, especially the immediate future.

हम मुख्य क्रिया के साथ कई expressions का उपयोग करते हैं जब हम भविष्य को बताना होता है, विशेष रूप से तत्काल भविष्य को।

1) Be about to

be about to + base form of the verb का प्रयोग उस समय किया जाता है जब हम expect करते हैं कि कुछ बहुत जल्द ही होने वाला है। इस पर और emphasis डालने के लिए इसके साथ JUST का भी use कर सकते हैं जैसे -

The doctor is about to reach. डॉक्टर पहुंचने वाला है।

We are just about to leave. हम बस जाने ही वाले हैं।

With time expressions, we don't use be about to, we use the present simple. जैसे -

Hurry up, please! The train is about to leave!

Hurry up, please! The train leaves in five minutes!

Not: The coach is about to leave in five minutes!

2) Be due to

be due to + base form of the verb का use उन बातों बताने के लिए होता है जो scheduled हो जैसे -

The doctor is due to arrive at the hospital at 10:30. डॉक्टर 10:30 बजे अस्पताल पहुंचने वाले है।

The classes are due to commence in the end of this month. कक्षाएं इस महीने के अंत में शुरू होने वाली हैं।

अपनी Spoken English में सिर्फ will/ shall/ be going to का use करके future के बारे में बात ना करें। ऊपर दिए गए दोनों phrases का भी situation के according use करें और अपनी English को impressive बनाइए।

अब हम मिलेंगे next class में एक नए topic के साथ। Till then Namaste and be safe.

